

PGC-253061
Autonomous Examination-2025
SEMESTER-III
M.Com.
Paper – I (Management concept)

Time : 3 Hours

M.M. : 70

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के समक्ष अंक एवं शब्द सीमा निर्दिष्ट है।

Note: Attempt all questions. Scheme of questions and marks are indicated against the questions.

‘खण्ड-अ’

Section-A

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न—दिये गये 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Objective type questions Attempt any 10 questions out of 12 given below.

(1 x 10 = 10)

- | | |
|--|---|
| <p>(i) मानवीय विचारधारा का प्रतिपादन किया था –
 (अ) उर्विक
 (स) एल्टन मेयो
 Human school was propounded by -
 (a) Urwik
 (c) Elton mayo</p> | <p>(ब) टैरी
 (द) फेयोल
 (b) Terry
 (d) Fayol</p> |
| <p>(ii) नियोजन है –
 (अ) आवश्यक
 (स) समय की बर्बादी
 Planning is -
 (a) Necessary
 (c) Wastage of time</p> | <p>(ब) अनावश्यक
 (द) धन की बर्बादी
 (b) Unnecessary
 (d) Wastage of money</p> |
| <p>(iii) भारार्पण है –
 (अ) दूसरों से कार्य कराना
 (स) कार्यों को सौंपा जाना
 Delegation is -
 (a) Getting things done by others
 (c) Assigning the Tasks</p> | <p>(ब) उत्तरदायित्व निर्धारित करना
 (द) इनमें से कोई नहीं
 (b) Fixing of Responsibility
 (d) None of these</p> |
| <p>(iv) प्रबंधकीय नियन्त्रण किया जाता है –
 (अ) निम्न प्रबन्धको द्वारा
 (स) उच्चतम स्तरीय प्रबन्धको द्वारा
 Managerial control is done -
 (a) By lower level managers
 (c) By top level managers</p> | <p>(ब) मध्यम स्तरीय प्रबन्धकों द्वारा
 (द) सभी स्तरीय प्रबन्धको द्वारा
 (b) By middle level managers
 (d) By all level managers</p> |
| <p>(v) अभिप्रेरण के प्रति कर्मचारियों का दृष्टिकोण है –
 (अ) नकारात्मक
 (स) शंकायुक्त</p> | <p>(ब) धनात्मक
 (द) इनमें से कोई नहीं</p> |

(02)

Attitude of the employees towards motivation is-

- (a) Negative (b) Positive
 (c) Doubtful (d) None of these

- (vi) प्रबन्ध के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबन्ध की विचारधारा का प्रतिपादन.....ने किया था।
 Scientific concept in management was propounded by.....
- (vii) उपक्रम में संगठन की स्थापनाकरता है।
 In an enterprise organizing is established by.....
- (viii) स्टाफिंग क्रिया..... विभाग से संबंधित है।
 Staffing activity related todepartment.
- (ix) नियंत्रण प्रक्रिया केतत्व हैं।
 Control process areelements.
- (x) गत्यात्मकता शब्द.....भाषा से लिया गया है।
 The word dynamics has been taken from.....language.
- (xi) नियन्त्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। (सत्य/असत्य)
 Control provides safety against risk. (True/False)
- (xii) समन्वय प्रबन्ध का कार्य नहीं है। (सत्य/असत्य)
 Co-ordination is not the function of management. (True/False)

‘खण्ड-ब’

Section-B

2. अति लघुत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 70–100 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Very Short answer type questions (word limit – 70-100 words) Attempt any Three questions out of Five given below.

(03 x 03= 09)

- (i) प्रबन्ध की सार्वभौमिक अवधारणा को समझाइये।
 Explain universality concept of management.
- (ii) दीर्घकालीन नियोजन को समझाइये।
 Explain long or perspective planning.
- (iii) विकेन्द्रीयकरण के तीन लाभ बताइये।
 State the three advantages of decentralization.
- (iv) नियंत्रण की तीन सीमायें बताइये।
 Mention the three limitations of control.
- (v) रेखा संगठन क्या है?
 What is line organization?

(03)

‘खण्ड—स’
Section-C

3. लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 200–250 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
Short answer type questions (word limit – 200-250 words) Attempt any Three questions out of Five given below.

(06 x 03 = 18)

- (i) समन्वय के विभिन्न उपकरणों की विवेचना कीजिए।
Discuss the different tools of Co-ordination.
- (ii) स्टाफिंग के महत्व को संक्षेप में समझाइये।
Explain in brief the importance of staffing.
- (iii) भारार्पण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
How can the delegation be made effective?
- (iv) संगठन की आधुनिक विचारधारा तथा परम्परावादी विचारधारा में अन्तर बताइये।
Explain the distinguish between modern meory and traditional theory.
- (v) प्रबंधक के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करिये।
Describe in brief the primary functions of manager.

‘खण्ड—द’
Section-D

4. दीर्घोत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 500–600 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
Long answer type questions (word limit – 500–600 words) Attempt any three questions out of five given below.

(11 x 03 = 33)

- (i) प्रबन्ध की संयोगिक विचारधारा पर एक व्यापक टिप्पणी लिखिये।
Write a detailed note on contingency theory of management.
- (ii) उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? क्या उत्तरदायित्व का भारार्पण किया जा सकता है।
What is meant by responsibility? What are its kinds? Can responsibility be delegated?
- (iii) संचालन से क्या आशय है? संचालन की तकनीकों का वर्णन करिये।
What is meant by direction? Discuss the techniques of direction.
- (iv) मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को समझाइये।
Explain Maslow's theory of motivation.
- (v) समूहों का निर्माण क्यों होता है? समूह विचारधाराओं पर प्रकाश डालिये।
Why groups are formed? Explain the theories of group formation.

PGC--253062
Autonomous Examination DEC-2025
SEMESTER-III
M. Com.
Paper – II (Organisational Behavior)

Time : 3 Hours

M.M. : 70

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के समक्ष अंक एवं शब्द सीमा निर्दिष्ट है।

Note: Attempt all questions. Scheme of questions and marks are indicated against the questions.

‘खण्ड-अ’

Section-A

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न—दिये गये 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Objective type questions Attempt any 10 questions out of 12 given below.

(1 x 10 = 10)

(i) संगठनात्मक व्यवहार किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है?

What type of science is organizational behavior considered?

- (a) केवल वर्णनात्मक Only descriptive
- (b) केवल अनुप्रयोगीय Only applied
- (c) वर्णनात्मक एवं व्यवहारिक Descriptive and applied
- (d) शुद्ध सैद्धान्तिक Purely theoretical

(ii) कुशल नेतृत्व में निम्न गुण होते हैं।

Effective leadership has the following qualities:

- (a) निर्णय लेने की क्षमता Decision-making ability
- (b) सरल व सत्यनिष्ठा Simplicity and integrity
- (c) साहसी Courageous
- (d) इनमें से सभी All of these

(iii) संघर्ष का मूल कारण माना जाता है।

The root causes of conflict are:

- (a) संचार में सुधार Improved communication
- (b) विचारों और हितों की असमानता Disparity of opinions and interests
- (c) समान लक्ष्य (Common goals)
- (d) टीम वर्क (Teamwork)

(iv) कौन सा संचार सबसे तेज माना जाता है?

Which form of communication is considered the fastest?

- (a) लिखित Written
- (b) मौखिक Verbal
- (c) गैर मौखिक Non-verbal
- (d) दृश्य Visual

(v) संगठनात्मक विकास अधिक जोर देता है।

Organizational development places greater emphasis on:

- (a) संरचना पर structure
- (b) रणनीति पर strategy
- (c) मानव व्यवहार पर human behavior
- (d) वित्तीय संसाधन पर financial resources

(vi) संगठनात्मक व्यवहार में अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ----- रहना पसंद करता है।

In organizational behavior, a person with introverted personality likes to remain-----.

(vii) प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व को----- भी कहा जाता है।

Democratic leadership is also called _____.

(viii) दो-व्यक्तियों के बीच संघर्ष को ----- संघर्ष कहते हैं।

Conflict between two people is called ----- conflict.

(ix) आमने-सामने संदेशवाहन----- संप्रेषण का प्रकार है।

Face-to-face communication is a type of----- communication.

(x) संगठन में निरंतर परिवर्तन ----- का प्रमुख सिद्धांत है।

Continuous change in organization is the main principle of -----

(xi) मानव व्यवहार को समझना और सुधारना संगठनात्मक व्यवहार का मुख्य उद्देश्य है। (सत्य/असत्य)

The main objective of organizational behavior is to understand and improve human behavior. (True/False)

- (xii) फिडलर का आकस्मिकता मॉडल स्थिति और नेतृत्वकर्ता की शैली पर निर्भर है।
(सत्य/असत्य)
Fiedler's contingency model is dependent on the situation and the leader's style.
(True/False)

‘खण्ड-ब’
Section-B

2. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 70–100 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Very Short answer type questions (word limit – 70-100 words) Attempt any three questions out of five given below.

(3 x 3 = 09)

- शिक्षण स्थानांतरण किसे कहते हैं?
What is learning transfer?
- नेतृत्व से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by leadership?
- संघर्ष की परम्परावादी विचारधारा को समझाइए।
Explain the traditionalist ideology of conflict.
- अंगूरीलता संप्रेषण क्या है?
What is grapevine communication?
- संगठनात्मक विकास का अर्थ बताइए?
What is the meaning of organizational development?

‘खण्ड-स’
Section-C

3. लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 200–250 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Short answer type questions (word limit – 200-250 words) Attempt any Three questions out of Five given below.

(6 x 3 = 18)

- सामाजिक अधिगम सिद्धांत को समझाइए?
Explain social learning theory?
- नेतृत्वकर्ता और प्रबंधक में अंतर बताइए।
Explain the difference between a leader and a manager.

- संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly describe the process of conflict.
- संप्रेषण की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए।
Explain the barriers to communication.
- संगठन विकास के लक्ष्य कौन-कौन से हैं?
What are the goals of organization development?

‘खण्ड-द’
Section-D

4. दीर्घोत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 500–600 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Long answer type questions (word limit – 500–600 words) Attempt any three questions out of five given below.

(11 x 3 = 33)

- संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति एवं विशेषताओं को लिखिए।
Write the nature and characteristics of organizational behaviour.
- नेतृत्व के विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। वर्तमान परिस्थितियों में आप किसे अच्छा समझते हैं?
Describe the different leadership styles. Which do you think is best in the current circumstances?
- संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए।
Define conflict. Discuss various methods of conflict resolution.
- द्विमागीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
What do you understand by two-way communication? Describe the communication process.
- संगठन विकास की प्रक्रिया की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the major stages of the process of organisation development.

PGC-253063
Autonomous Examination DEC-2025
SEMESTER-III
M.Com. - COMMERCE
Paper – III (Advanced Cost Accounting)

Time : 3 Hours

M.M. : 70

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के समक्ष अंक एवं शब्द सीमा निर्दिष्ट है।

Note: Attempt all questions. Scheme of questions and marks are indicated against the questions.

‘खण्ड-अ’
Section-A

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न—दिये गये 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Objective type questions Attempt any 10 questions out of 12 given below.

(1 x 10 = 10)

- (i) तेल उद्योगों में कौन-सी विधि प्रयोग होती है ?
 (अ) ठेका लागत (ब) प्रक्रिया लागत
 (स) परिचालन लागत (द) ये सभी
 In oil industry which method is used ?
 (a) contract costing (b) Process cost
 (c) Operating costing (d) All of these
- (ii) लागत प्रपत्रों की जांच करने का दायित्व है –
 (अ) वित्तीय अंकेक्षक पर (ब) लागत अंकेक्षक पर
 (स) दोनों पर (द) कोई नहीं
 The responsibility of inspection ?
 (a) Financial auditor (b) Cost auditor
 (c) On both (d) None of these
- (iii) उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री का विचरण ज्ञात किया जाता है –
 (अ) श्रम विचरण द्वारा (ब) उपरिव्यय विचरण द्वारा
 (स) सामग्री विचरण द्वारा (द) सभी से
 Material used is done by -
 (a) Labour variance (b) Overhead variance
 (c) Material variance (d) All of these
- (iv) सेवाओं की लागत ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होगा –
 (अ) सेवा लागत (ब) उत्पाद लागत
 (स) श्रम लागत (द) परिचालन लागत
 The cost of services is determined by -
 (a) Service costing (b) Product costing
 (c) Labour costing (d) Operating costing

(02)

- (v) निविदा मूल्य को कहते हैं –
 (अ) निर्य मूल्य (ब) अनुमानित मूल्य
 (स) प्रमाण मूल्य (द) उपरोक्त सभी
 Tender price is also called -
 (a) Quotation price (b) Estimated cost
 (c) Standard price (d) All of them
- (vi) निविदा मूल्य = लागत +
 Tender price = cost +
 (vii) कार्यालय भवन का किरायालागत है।
 Rent of office building iscost.
 (viii) मानक लागत प्रणाली में लागत तत्वों के लिएनिर्धारित करना शामिल है।
 Standard costing involves settingfor cost elements.
 (ix) समय दर पद्धति मेंकी अधिक आवश्यकता रहती है।
 In time system of rateis necessary.
 (x) मूल लागत कोलागत भी कहते हैं।
 Price cost is also known ascost.
 (xi) सीमेन्ट उद्योग द्वारा प्रक्रिया लागत का प्रयोग किया जाता है। (सत्य/असत्य)
 Process costing is used by cement industry. (True/False)
 (xii) अपूर्ण ठेकों में लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। (सत्य/असत्य)
 Profit cannot be determined in incomplete contract. (True/False)

‘खण्ड-ब’
Section-B

2. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 70–100 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Very Short answer type questions (word limit – 70-100 words) Attempt any three questions out of five given below.

(3 x 3 = 09)

- (i) लागत लेखांकन में श्रम नियंत्रण का महत्व समझाइए।
 Explain the importance of labour control in cost accounting.
- (ii) वित्तिय एवं लागत लेखों में समायोजन को आवश्यकता को समझाइए।
 Explain the need or reconciliation of financial and cost accounting.
- (iii) “मशीन घंटा दर” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 Write a short note on "Machine Hour Rate".
- (iv) “आदेश देने की लागत” एवं “वहन लागत” में अन्तर बताइए। ?
 Distinguish between "ordering cost" and "carrying cost".
- (v) लागत पत्र को परिभाषित कीजिए।
 Define cost sheet.

(03)

'खण्ड-स'

Section-C

3. लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 200–250 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Short answer type questions (word limit – 200-250 words) Attempt any Three questions out of Five given below. (6 x 3 = 18)

- (i) गंगा पंप कंपनी प्रति वर्ष 75000 वाल्व काम में लती है तथा उसका उपयोग समान रूप से 6250 प्रति माह की दर से होता है। मात्राओं में क्रय करने पर वाल्वों की लागत 1.5 रु. प्रति इकाई पड़ती है और वहन लागत वार्षिक आधार पर औसत सामग्री के विनियोग पर 20 प्रतिशत अनुमानित है। एक आदेश देने पर सुपुर्दगी की लागत रु. 18 है। एक आदेश देने की तिथि से सुपुर्दगी प्राप्त करने में 45 दिन लगते हैं तथा 3250 वाल्वों का सुरक्षा स्टॉक वांछनीय है। आप ज्ञात कीजिए।
(a) सर्वाधिक मितव्ययी आदेश मात्रा तथा आदेशों की संख्या।
(b) आदेश बिन्दु
(k) सर्वाधिक मितव्ययी आदेश मात्रा यदि रु. 150 प्रति के स्थान पर वाल्वों की लागत रु. 4.50 प्रति वाल्व हो जाए।
Ganga Pump Company uses 75,000 valves per year and uses them uniformly at the rate of 6,250 per month. Valves cost Rs.1.5 per unit when purchased in bulk, and carrying costs are estimated at 20 percent of the average material investment on an annual basis. Delivery costs for an order are Rs.18. It takes 45 days from the date of placing an order to receive delivery, and a safety stock of 3250 valves is desirable. You can find out.
(a) Most economical order quantity and number of orders.
(b) Order point.
(c) Most economical order quantity if valves cost Rs. 4.50 per valve instead of Rs. 150 each
- (ii) सामग्री नियंत्रण क्या है ? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
What is material control ? Describe its objectives
- (iii) इकाई लागत की विशेषताएं क्या हैं ?
What are the characteristics feature of unit costing ?
- (iv) निम्न सूचनाओं से एक आरा मिल के लिए मशीन घण्टा दर निकालिए –
(a) आरा मिल का क्रय मूल्य रु. 90000
(b) रेलवे भाड़ा रु. 6000
(c) मशीन स्थापना व्यय रु. 4000
(d) मशीन का जीवन काल प्रति वर्ष 2000 घण्टे के आधार पर 10 वर्ष
(e) द्रस का 50 प्रतिशत मरम्मत व्यय।
(f) विद्युत शक्ति का उपयोग प्रति घण्टे 10 इकाई @2रु. प्रति इकाई।
(g) चिकसाई तेल 8 घण्टे के प्रति दिन के लिए रु. 40

(04)

'खण्ड-द'

Section-D

(h) उपभोग्य स्टोर्स 8 घण्टे के प्रति दिन के लिए रु. 20

(i) मशीन संचालक की मजदूरी 8 घण्टे के प्रति दिन के लिए रु. 40

From the following information calculate machine hour rate of saw mill -

- (a) Purchase price of saw mill Rs. 90000
(b) Railway freight and carriage Rs. 6000
(c) Machine installation charge Rs. 4000
(d) Life of machine 10 year at 2000 working hour per year.
(e) Repair charge 50% of depreciation
(f) Consumption of electric power 10 units per hour @ 2 per unit.
(g) Lubricating oil @ 4 per day for 8 hours.
(h) Consumable store @ 20 per day of 8 hours.
(i) Wages of machine operator @ 40 per day of 8 hours.

(v) लागत पत्र से आप क्या समझते हैं। लागत पत्र के प्रकार, प्रारूप सहित समझाइए।

What do you mean by a cost sheet ? Explain the types of a cost sheet with example.

'खण्ड-द'

Section-D

4. दीर्घोत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 500–600 शब्द) दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Long answer type questions (word limit – 500–600 words) Attempt any three questions out of five given below.

(11 x 3 = 33)

- (i) 40 पियानों की उत्पादन लागत 80,000 रु. है जिसमें 20 ग्रेड A के पियानों तथा 20 ग्रेड B के हैं। ग्रेड B के पियानों की लागत कुल लागत की 55 प्रतिशत व ग्रेड A के पियानों की लागत कुल लागत की 45 प्रतिशत है। प्रति ग्रेड की लागत ज्ञात कीजिए तथा उसमें 10 प्रतिशत अप्रत्यक्ष व्यय के लिए जोड़िये। यातायात तथा शो-रूम के स्थान का व्यय प्रति पियानों रु. 60 है। विक्रय एवं विज्ञापन व्यय बिक्री मूल्य पर 10 प्रतिशत है। बिक्री मूल्य ग्रेड A का 3,150 रु. व ग्रेड B का 3,885 रु. है। क्रमशः दोनों ग्रेड के कुल परिव्यय तथा विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत दिखाते हुए लागत पत्र बनाइए।
The cost of making 40 pianos of which 20 are grade A and 20 are grade B is Rs. 80,000 pianos of grade A cost 55% and pianos of grade B cost 45% of total cost ascertain the cost of each grade and add there to 10% for indirect expenses. Transport and space in the showroom cost Rs. 60 per piano selling expenses and advertisement are 10% of selling which is 3,150 in grade A and Rs. 3,885 in grade B. Prepare a cost sheet showing percentage of profit on total cost and selling price respectively on each grade.

(05)

- (ii) निम्न विवरण प्रक्रिया 'स' से संबंधित है जो अंतिम प्रक्रिया है –
Following detail related to process 'C' which is the last process.
- | प्रक्रिया 'ब' से हस्तांतरण | Unit | Rs. |
|--|------|------|
| Transfer from process 'B' | 4000 | 9000 |
| प्रक्रिया 'स' से निर्मित स्टॉक को हस्तांतरित | | |
| Transfer from process 'C' to finished go stock | 3240 | - |
| प्रत्यक्ष मजदूरी | | |
| Direct wages | | 2000 |
| प्रत्यक्ष सामग्री | | |
| Direct material | | 3000 |
- कारखाना उपरिव्यय, प्रत्यक्ष सामग्री का 400 प्रतिशत है। सामान्य क्षय प्रविष्टि इकाइयों का 20 प्रतिशत है। अवशेष का मूल्य रु. 5 प्रति इकाई है। तैयार कीजिए।
(a) प्रक्रिया 'स' खाता (b) सामान्य क्षय खाता (c) असामान्य बचत खाता।
Factory overhead are 400% of direct material normal working in 20% of units entered scrap value in Rs. 5 per unit prepare :-
(a) Process 'C' account
(b) Normal decay account
(c) Abnormal affectivity account
- (iii) श्री रवि अग्निहोत्री की लागत लेखा पुस्तकें वर्ष 2018-19 के लिए 50,255 रु. का लाभ प्रदर्शित करती है। उनके वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ 31,200 रु. है। खातों का अवलोकन करने पर निम्न जानकारी प्राप्त हुई –
The cost look of Shri Ravi Agnihotri for the year 2018-19 showed a profit of Rs. 50,255. The profit disclosed by financial books in 31,200 Rs. following information is gather through the inspection of accounts.
- (a) वित्तीय लेखों में आरयकर का 15,000 रु. भुगतान किया गया।
Payment term was 15,000 Rs in financial accounting.
- (b) वित्तीय लेखों में अशोध्य ऋण की राशि रु. 2,000 थी।
Amount of bad debts in financial account was Rs. 2,000
- (c) लागत लेखों में कारखाना उपरिव्यय 15,000 रु. था जबकि वास्तविक अपरिव्यय 12,255 रु. है।
Factory overhead in cost account was Rs. 15,000 rent actual overhead were Rs. 12,255.
- (d) हस्तांतरण शुल्क की प्राप्ति रु. 1200 है।
Transfer fees received was Rs. 1,200.
- (e) संचालक शुल्क रु. 1,000 का भुगतान किया गया है।
Rs. 1,000 was paid for directors fees.

(06)

- (f) रु. 50,000 का प्लांट लगाया गया पर अभी प्रयोग नहीं हुआ। इस पर 10 प्रतिशत की दर से छस लगाया गया है।
Plant costing Rs. 50,000 was installed but not yet used.
Depreciation @ 10% was charged.
आप लागत लेखों का वित्तीय लेखों के लाभ से मिलान करने वाला विवरण बनाइए।
You are required to prepare a statement reconciling cost account profit will profits of financial account.
- (iv) लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों में समायोजन की आवश्यकता को स्पष्ट करें। दोनों लेखों में अंतर के कारण को भी समझाइए।
Explain the need for reconstruction of financial and cost accounting.
Also explain the reason for differences in both accounts.
- (v) मूल लागत क्या है ? मूल लागत के घटकों को विस्तार से समझाइए।
What do you mean by price cost ? Explain in detail, various components of price cost.

—000—

PGC-253064
Autonomous Examination DEC-2025
SEMESTER –III
M. COM.

Paper - V (International Marketing)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के समक्ष अंक एवं शब्द सीमा निर्दिष्ट है।

Note : Attempt all questions. Scheme of questions and marks are indicated against the questions.

खण्ड—अ

(Section – A)

01. वस्तुनिष्ठ प्रश्न – दिये गये 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Objective Type Question – Attempt any 10 questions out of 12 given below. (1 X10=10)

- (i) अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र है –
(अ) आयात व्यापार (ब) निर्यात व्यापार
(स) पुनः निर्यात व्यापार (द) उपरोक्त सभी
Scope of International Marketing is -
(a) Import Trade (b) Export Trade
(c) Entrepote Trade (d) All of the above
- (ii) विदेशी बाजार के चयन का आधार है –
(अ) लक्ष्य बाजार का आकार (ब) लक्ष्य बाजार के देश की आर्थिक नीतियाँ
(स) प्रतिस्पर्धा की स्थिति (द) उपरोक्त सभी
Criteria for selection of foreign market is -
(a) Size of target market
(b) Policies of countries of target market
(c) Position of Competition
(d) All of these
- (iii) घरेलू विपणन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषाओं में एकमात्र अंतर यह है कि
(अ) विपणन गतिविधियाँ एक से अधिक देशों में होती हैं
(ब) विपणन गतिविधियाँ केवल एक देश में होती हैं
(स) विपणन गतिविधियाँ केवल मेजबान देश में होती हैं
(द) विपणन गतिविधियाँ सभी देशों में होनी चाहिये
The only difference in the definitions of domestic marketing and international marketing is that -
(a) the marketing activities take place in more than one country
(b) the marketing activities take place in one country only
(c) the marketing activities take place in host country only
(d) the marketing activities must take place in all countries

(02)

- (iv) नये उत्पाद विकास का प्रारंभ नये उत्पाद विकास के निम्न चरण में से किस एक से होती है –
(अ) विचार स्क्रीनिंग (ब) विचार निर्माण
(स) परीक्षण विपणन (द) अवधारणा परीक्षण
New product development starts with which one of the following steps of new product development -
(a) Idea screening (b) Idea generation
(c) Test marketing (d) Concept testing
- (v) उत्पाद के अनुकूलन का अर्थ है –
(अ) उत्पाद का प्रमापीकरण (ब) उत्पाद में परिवर्तन लाना
(स) उत्पाद का निर्माण बढ़ाना (द) उत्पाद के निर्माण को बंद करना
Meaning of product adaption is -
(a) Standardization of product
(b) Change in product
(c) Increase the production of product
(d) Closing of production of product
- (vi) वितरण वाहिकाएँ निम्न में से किस पर निर्भर करती हैं –
(अ) लक्षित बाजार आकार (ब) प्रतिस्पर्धा
(स) उपलब्ध वितरण मध्यस्थ (द) उपरोक्त सभी
Distribution channels are depending on which of the following?
(a) Target market size (b) Competition
(c) Available distribution intermediaries (d) All of the above
- (vii) निम्न में से कौन-सा सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो विदेशी व्यापार के लिये आवश्यक है—
(अ) विनिमय विपत्र (ब) लदान पत्र
(स) माल की उत्पत्ति का प्रमाणपत्र (द) उपरोक्त सभी
Which is the most important documents needed for foreign trade-
(a) Bill of Exchange (b) Bill of lading
(c) Certificate of origin of goods (d) All of these
- (viii) का आमतौर पर मतलब होता है कि कंपनी किसी दूसरे देश में किसी ग्राहक को सामान बेचती है, चाहे वह मध्यस्थ हो या अंतिम ग्राहक।
..... usually means that the company sells to a customer in another country, be it an intermediary or an end-customer.
- (ix) बाजार खण्ड का प्रथम चरण है।
..... is the first step of market segment.
- (x) ISO 9000 निर्माता के के पंजीकरण और प्रमाणन से संबंधित है।
ISO 9000 concerns the registration and certification of a manufacturer's

(03)

- (xi) व्यवहार में, कंपनियों मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने के लिये हमेशा अपने उत्पादों की कीमतें देश के लक्षित बाजारों में ही तय करती हैं। (सत्य/असत्य)
In practice, companies always fix the price of products in country target markets to avoid the impact of currency fluctuations.
(True/False)
- (xii) उत्पाद व्यक्तिगत या सामूहिक वास्तविकता के प्रतीक हो सकते हैं। (सत्य/असत्य)
Products can be symbols of individual or collective reality.
(True/False)

खण्ड-ब

(Section - B)

02. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 70 – 100 शब्द) – दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Very Short Answer Type Questions (Word Limit 70 - 100 words) - Attempt any three questions out of five given below. (03X03=09)

- (i) 'विदेशी व्यापार की पहचान' का क्या अर्थ है?
What is the meaning of 'Identifying foreign market'?
- (ii) किस प्रकार की वस्तुओं के लिये प्रत्यक्ष निर्यात विपणन श्रेष्ठ है?
For which type of goods the direct export marketing is better?
- (iii) व्यापार चिन्ह क्या होता है?
What is Trade Mark?
- (iv) डम्पिंग क्या होती है?
What is dumping?
- (v) पोत लदान बिल क्या है?
What is Bill of Lading?

खण्ड-स

(Section - C)

03. लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 200 – 250 शब्द) – दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Short Answer Type Questions (Word Limit 200 - 250 words) - Attempt any three questions out of five given below. (06X03=18)

- (i) अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषताएँ लिखिये।
Mention the characteristics of International Marketing.
- (ii) भारत में भूमण्डलीकरण के पक्ष में तर्क दीजिये।
Give an argument in favour of Globalization in India.
- (iii) निष्पादन क्वालिटी व अनुरूपता क्वालिटी में क्या अंतर है?
What is the difference between performance quality and conformance quality?
- (iv) निर्यात मूल्य उद्धरण करते समय क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिये?

What precaution should be taken when quoting international prices?

(04)

- (v) विदेशी बाजार चयन के बाजार संबंधी किन्हीं चार तत्वों को समझाइये।
Explain any four market related factors for foreign market selection.

खण्ड-द

(Section - D)

04. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा 500 – 600 शब्द) – दिये गये पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Long Answer Type Questions (Word Limit 500 - 600 words) - Attempt any three questions out of five given below. (11 X3=33)

- (i) अंतर्राष्ट्रीय विपणन से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्या विशेष कठिनाईयाँ हैं?
What is meant by International Marketing? What are the special difficulties of International Marketing?
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय विपणन में पैकेजिंग डिजाइन पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिये।
Explain the factors which influence packaging design in international marketing.
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण का महत्व बताइये।
State importance of pricing in international marketing.
- (iv) संभार तंत्र निर्णय (भौतिक वितरण) के संघटक कौन-से हैं?
What are the constituents of logistic decision (Physical Distribution)?
- (v) भारत में विदेशी व्यापार में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले प्रलेखों का वर्णन कीजिये।
Explain the main documents used in foreign trade in India.

-----000-----